



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 373]
No. 373]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 26, 1983/भाद्र 4, 1905
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 26, 1983/BHADRA 4, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1983

का.आ. 620(अ) :—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में भारत सरकार के अपर सचिव श्री के. एस. दिलीपसिंहजी को श्री एस. बी. सरकार के स्थान पर प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है।

2. यह अधिसूचना 22 अगस्त, 1983 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं. 7/83-फा. सं. 131/22/83-स्व. नि.-2]

हरबंस सिंह, सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1983

S.O. 620(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Gold

646 GI/83

(Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby appoints Shri K. S. Dilipsinhji, Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) as Administrator vice Shri S. B. Sarkar.

2. This notification shall be deemed to have come into force on 22nd August, 1983.

[No. 7/83-F. 131/22/83-GCII]

HARBANS SINGH, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1983

का.आ. 621(अ) :—मैं, के. एस. दिलीपसिंहजी, प्रशासक, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश देता हूँ कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 4304, तारीख 2 दिसम्बर, 1968 का निम्नलिखित और संशोधन किया जाए, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की मारणी में, क्रम सं. 7 के सामने, स्तम्भ (2) के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उप कलेक्टर”।

[सं. 8/83-फा. सं. 131/17/83-जी. सी.-2]

के. एस. दिलीपसिंहजी, प्रशासक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1983

S.O. 621(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), I, K. S. Dilipsinhji, the Administrator, hereby direct that the following further amendment shall be made in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. S.O. 4304, dated the 2nd December, 1968, namely :—

In the said notification, in the Table against serial number 7, for the entry under column (2) the following entry shall be substituted, namely :—

“Deputy Collector of Central Excise”.

[No. 8/83-F. No. 131/17/83-GC.II]
K. S. DILIPSINGH, Administrator

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 1983

का.आ. 622(अ) :—केन्द्रीय सरकार, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 114 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) नियम, 1968 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप, फीस और प्रकीर्ण विषय) संशोधन नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वर्ण नियंत्रण (प्ररूप, फीस और प्रकीर्ण विषय), नियम, 1968 के परिशिष्ट में—

(1) प्ररूप जी.एस. 11 के टिप्पण 2 में “लाख और तांबा” शब्दों के स्थान पर “लाख, तांबा, प्लास्टिक और हाथी दांत” शब्द रखे जाएंगे।

(2) प्ररूप जी.एस. 12 के टिप्पण 1 में “लाख और तांबा” शब्दों के स्थान पर “लाख, तांबा, प्लास्टिक और हाथी दांत” शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 9/83-फा. सं. 131/12/83-स्व. नि. -2]

के. एस. दिलीपसिंहजी, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 1983

S.O. 622(E).—In exercise of the powers conferred by section 114 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous Matters) Rules, 1968, namely :—

1. (1) These rules may be called the Gold Control (Forms, Fees and Miscellaneous Matters) Amendment Rules, 1983.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Gold Control (Forms Fees and Miscellaneous Matters) Rules, 1968, in the Appendix,—

(i) in Form G.S. 11, in NOTE 2, for the words “lac and copper”, the words “lac, copper, plastic and ivory” shall be substituted;

(ii) in Form G.S. 12, in NOTE 1, for the words “lac and copper”, the words “lac, copper, plastic and ivory” shall be substituted.

[No. 9/83-F. No. 131/12/83-GC.II]

K. S. DILIPSINHJI, Addl. Secy.